

## अत्यंत आवश्यक

सेवा में  
प्रधानाचार्य/ केंद्र अधीक्षक  
परीक्षा केंद्र, टर्म- I  
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय

**विषय:- ओएमआर पर उत्तर देने के तरीके में बदलाव के संबंध में।**

महोदया/महोदय,

कृपया विभिन्न परिपत्रों, केंद्र अधीक्षक हेतु दिशा-निर्देश और दी गई ओएमआर के माध्यम से स्कूलों को जारी संप्रेषणों का संदर्भ ग्रहण करें, जहां सूचित किया गया था कि अभ्यर्थी ओएमआर शीट में दिए गए बॉक्स में सही प्रतिक्रिया/उत्तर को चिह्नित करने के लिए छोटे ए, बी, सी और डी (a,b,c व d) लिखेंगे। यह देखा गया है कि मूल्यांकन के दौरान कभी-कभी मूल्यांकनकर्ता छोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं। इससे ओएमआर के मूल्यांकन में अधिक समय लग रहा है।

अतः यह निर्देश दिया जाता है कि 7 दिसंबर, 2021 से अंत तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं में ओएमआर विकल्पों में अभ्यर्थियों द्वारा सही उत्तर के अनुसार बड़े ए, बी, सी और डी (A, B, C व D) चिह्नित किया जाएगा। यह फैसला परीक्षाओं के आयोजन के बीच लिया जा रहा है। अतः केन्द्र अधीक्षकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित कार्रवाई कड़ाई से करें:-

1. सभी सहायक अधीक्षकों को सूचित करें कि वे इन अनुदेशों की घोषणा करें कि अब छोटे ए, बी, सी, और डी (a,b,c व d) के स्थान पर बड़े ए, बी, सी और डी (A, B, C व D) में उत्तर दिए जाने हैं।

2. अन्वीक्षक अन्वीक्षण के दौरान जांच करेंगे कि सभी अभ्यर्थी बड़े ए, बी, सी और डी (A, B, C व D) में उत्तर दे रहे हैं। यदि नहीं, तो इसे ठीक किया जाना चाहिए।

3. प्रेक्षक भी परीक्षा के संचालन के दौरान परीक्षा केंद्र का चक्कर लगाकर यह जांच करेंगे कि अभ्यर्थियों द्वारा बड़े ए, बी, सी और डी (A, B, C व D) में उत्तर दिए गए हैं और मूल्यांकन के दौरान भी इसका प्रेक्षण करेंगे।

सभी केन्द्र अधीक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त सूचना प्रसारित करें तथा परीक्षा के दौरान सभी कक्षों में जाकर सुनिश्चित करें कि सीबीएसई द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण अन्वीक्षण कार्य पर जाने वाले अपने शिक्षकों और छात्रों को भी इन निर्देशों का पालन करने के लिए सूचित करेंगे।

हस्ताक्षरित

(डॉ संयम भारद्वाज)  
परीक्षा नियंत्रक